



एनएसडब्ल्यू पुलिस फ़ोर्स अपराध रोकथाम सिरीज़

अपनी समुद्री नौका की सुरक्षा करें

समुद्री नौकाओं की सुरक्षा

न्यू साऊथ वेल्स में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर विश्व के कुछ सर्वोत्तम जलमार्ग बिल्कुल हमारी दहलीज पर हैं।

चाहे आप बन्दरगाह में जलभ्रमण कर रहे हो, झील में नौकायन या समुद्रतट से कुछ दूरी पर मछली पकड़ रहे हों, हर स्थिति में अपनी समुद्री नौकाओं को पूरी तरह से काम करने की हालत में रखना बहुत ज़रूरी है।

जब समुद्री नौका ने बन्दरगाह में लंगर डाला हो, आपके ड्राइव-वे में या सड़क पर खड़ी हो, या चाहे आपकी गराज में, कुछ अतिरिक्त सावधानियाँ बरत के आप आपनी समुद्री नौका के लिए चोरों का शिकार होने की संभावना में काफ़ी कमी कर सकते हैं।

अपनी नौका की सुरक्षा को उतनी ही गम्भीरता से लेना चाहिए जितना कि घर, कार या साईकिल की सुरक्षा को। चाबियों को सुरक्षित करने, उत्तम ताले और चेनें लगवाना व हटा कर रखे जा सकने वाले मूल्यवान सामान को वहाँ से हटा कर आप अपनी समुद्री नौका में तोड़-फोड़ होने या चोरी होने से बचा सकते हैं।

अपनी समुद्री नौका की बेहतर तरीके से सुरक्षा करने के लिए नीचे कुछ आसान उपाय दिए जा रहे हैं:

जब आपकी नौका लंगर पर हो तो उसे सुरक्षित रखें

- चाबियों को **कभी भी** अपनी समुद्री नौका में न छोड़ें या रखें
- अपनी समुद्री नौका के उपकरणों को, जब वे उपयोग में नहीं लाए जा रहे हों तो **हमेशा** सुरक्षित रूप से व ऐसे रखें जिससे वे दिखाई न दें
- अपनी समुद्री नौका का नवीनीकरण करने के **बारे में सोचें**, जैसे कि उत्तम तरीकों से बनाए गए ताले, अलार्म सिस्टम व पहचान करने के तरीकों (क्रमांक नम्बरों व फ़ोटो) को रिकॉर्ड करना

घर पर समुद्री नौका की सुरक्षा करें

- ट्रेलरों को बाँधते समय **हमेशा** उत्तम प्रकार के ताले या चेनों को उपयोग करें
- मूल्यवान सामान, जैसे कि गहराई नापने का उपकरण (depth sounders) व लाईफ़ जैकेटों को **कभी भी** ऐसे न रखें कि वे नज़र आएँ, चाहे आपकी नौका घर पर ही खड़ी हो
- कोशिश करें कि आप अपनी नौका को **हमेशा** रोशनी या आबादी वाले स्थान में खड़ा करें

समुद्री नौका खरीदते या बेचते समय अपनी सुरक्षा करें

- अपनी समुद्री नौका को बेचने के लिए दिए गए विज्ञापन में उसका सही-सही स्थल **कभी भी न बताएँ**
- सम्भावित विक्रेता की पहचान के कागज़ **हमेशा** देखें व रिकॉर्ड करें
- बिना निरीक्षण के अपनी समुद्री नौका को टेस्ट ड्राइव के लिए **कभी न** ले जाने दें
- समुद्री नौका खरीदने से पहले www.ppsr.gov.au/buying-boat पर जाकर उसकी स्थिति के बारे में **हमेशा** चेक करें

समुद्री नौका की सुरक्षा व रक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.police.nsw.gov.au के समुद्री पृष्ठ पर जाएँ या www.rms.nsw.gov.au पर Roads and Maritime Services देखें

जुर्म से बचाव संबंधी अधिक जानकारी के लिए
www.police.nsw.gov.au/safety-and-prevention पर जाएँ

